



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्रतिधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 1982/वैशाख 7, 1904

No. 27]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 1982/VAISAKHA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1982

का०आ० 52(अ):—एक मास्यताप्राप्त राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया है कि मुक्त प्रतीक “फूल” उस दल के लिए धारित प्रतीक “कमल” के समुदाय विद्यता है और निर्वाचनी अभ्यासियों को “फूल” प्रतीक के आवंटन से मतदाताओं के मन में भ्रम उत्पन्न होगा। अतः उस दल ने यह अनुरोध किया है कि सारे देश के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में से “फूल” प्रतीक निकाल दिया जाए;

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की उक्त अनुरोध उचित है;

अतः अब, निर्वाचनों का संसाधन नियम, 1961 के नियम 5 और 10, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और अर्बन्तन) आदेश, 1968 के पैरा 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 और 18 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आयोग यह निवेश करता है कि हरियाणा और केरल की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए, जो इस समय प्रगति पर हैं, हरियाणा और केरल राज्यों में मुक्त प्रतीकों की सूची में से “फूल” प्रतीक हटा दिया जाए।

2. निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और अर्बन्तन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (घ) तथा उप-

पैरा (2) और पैरा 18 के अनुसरण में, तारीख 23 अप्रैल, 1982 की अपनी अधिसूचना सं० 56/82-I द्वारा यथा संशोधित तारीख, 8 अप्रैल, 1982 की अपनी अधिसूचना सं० 56/82 में निम्नलिखित संशोधन और करता है जो तारीख 17 अप्रैल, 1982 से प्रभावी समझा जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में:—

- (क) मद सं० 5, हरियाणा के सामने स्तम्भ 2 के नीचे “8-फूल” प्रविष्टि हटा दी जाएगी;
- (ख) 9 से 20 तक की विद्यमान प्रविष्टियां 8 से 19 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी;
- (ग) मद सं० 9, केरल के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे “5-फूल” प्रविष्टि हटा दी जाएगी; और
- (घ) 6 से 15 तक की विद्यमान प्रविष्टियां 5 से 14 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी।

उक्त संशोधन केवल हरियाणा और केरल के उन विधान सभा निर्वाचनों के बारे में प्रभावी रहेंगे जो तारीख 17 अप्रैल, 1982 को जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में हो रहे हैं।

[56/82-I]

आदेश से,

के० गणेशन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi the, 26 April, 1982

S.O. 52 (E):— Whereas a representation has been made by the Bharatiya Janata Party, a recognised National Party that free symbol 'FLOWER' resembles that party's reserved symbol 'LOTUS' and allotment of 'Flower' symbol to the independent candidates will cause confusion in the minds of voters and therefore that party has requested that the symbol 'Flower' be deleted from the list of free symbols all over the country;

And whereas the Commission is satisfied that the said request of Bharatiya Janata Party is reasonable;

Now, therefore, in pursuance of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution read with rule 5 and rule 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, paragraphs 4, 3, 8, 9, 10, 11, 12 and 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission hereby directs that for the purposes of the general elections to the Legislative Assemblies of Haryana and Kerala now in progress, the symbol 'Flower' shall be deleted from the list of free symbols in the States of Haryana and Kerala.

2. In pursuance of clause (d) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 and paragraph 18 of the Election

Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following further amendments to its notification No. 56/82, dated the 8th April, 1982 as amended vide notification No. 56/82-I, dated 23rd April, 1982 which shall be deemed to have been made with effect from the 17th April, 1982, namely:—

In Table 4 of the said notification—

- (a) Against item No. 5. Haryana under column 2, the entry "8. Flower" shall be deleted;
- (b) the existing entries 9 to 20 shall be renumbered as 8 to 19;
- (c) against item 9. Kerala under column 2, the entry "5. Flower" shall be deleted; and
- (d) the existing entries 6 to 15 shall be renumbered as 5 to 14.

The above amendments shall remain in force only in respect of Assembly elections to Haryana and Kerala which are being held in pursuance of notifications issued on 17 April, 1982.

[56/82-II]

By Order,

K. GANESAN, Secy.